



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY,

भाग II—खंड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 515]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 3, 1979/अग्राहायण 12, 1901

No. 515] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 3, 1979/AGRAHAYANA 12, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संकलन की जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखी जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली, 1 दिसम्बर, 1979

अधिसूचना

का० भा० 781 (अ).—भारत निर्वाचन आयोग ने अपने तारीख 29 नवम्बर, 1979 के आदेश द्वारा यह निदेश दिया है कि (1) इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए आरक्षित प्रतीक "गाय और बछड़ा" जाम किया जाएगा; और (2) दोनों गुटों में से कोई भी गुट सिर्फ "इंडियन नेशनल कांग्रेस" नाम का प्रयोग इंदिरा गांधी के तारीख 7 जनवरी, 1978 के आदेश-पत्र से उत्पन्न हुए मुख्य विवाद में प्रतिम निर्णय हो जाने तक नहीं करेगा;

और निर्वाचन आयोग ने निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 5 और 10, निर्वाचक प्रतीक (आरक्षण और आबंटन) आदेश, 1968 के पैरा 3, 6, 7, 8 और 18 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 324 द्वारा उसे प्रवृत्त शक्तियों तथा इस विमिस्र उसे समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपने तारीख 30 नवम्बर, 1979 के आदेश द्वारा यह आदेश किया है कि—

- (1) श्री देवराज असे के नेतृत्व वाले इंडियन नेशनल कांग्रेस के गुट को "इंडियन नेशनल कांग्रेस (अ)" के रूप में जाना जाए;
- (2) उक्त "इंडियन नेशनल कांग्रेस (अ)" को एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान की जाए;
- (3) उक्त "इंडियन नेशनल कांग्रेस (अ)" के लिए "बछड़ी" प्रतीक आरक्षित किया जाए; तथा

- (4) ऐसे सभी राज्यों की मुक्त प्रतीकों की सूची में से उक्त "बछड़ी" प्रतीक को हटा दिया जाए जिनमें वह ऐसे सम्मिलित है;

अतः, अब, निर्वाचन आयोग, निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आबंटन) आदेश, 1968 के पैरा 17 के उप-पैरा (1) के खंड (क) और (ख) तथा उप-पैरा (2) के अनुसरण में भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3 (2), तारीख 28 दिसम्बर, 1979 में का० भा० 557 (अ) के रूप में प्रकाशित और समर्थ-समय पर यथा संशोधित अपनी तारीख 28 दिसम्बर, 1979 की अधिसूचना सं० 56/79 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्—

उक्त अधिसूचना से संलग्न सारणी 1 में—

विद्यमान प्रविष्टि "1. इंडियन नेशनल कांग्रेस गाय और बछड़ा" के स्थान पर "1. इंडियन नेशनल कांग्रेस (अ) बछड़ी" प्रविष्टि रखी जाएगी;

उक्त अधिसूचना से संलग्न सारणी 4 में—

- (1) मद सं० 3—बिहार के सामने स्तम्भ 2 के नीचे "7—बछड़ी" प्रविष्टि हटाई जाएगी और 8 से 30 तक की विद्यमान प्रविष्टियां 7 से 29 तक के रूप में पुनः संख्यांकित की जाएंगी;
- (2) मद सं० 8—कर्नाटक के सामने, स्तम्भ 2 के नीचे "7—बछड़ी" प्रविष्टि हटाई जाएगी और 8 से 26 तक की विद्यमान प्रविष्टियां 7 से 25 तक के रूप में पुनः संख्यांकित की जाएंगी;
- (3) मद सं० 9—केरल के सामने, स्तम्भ 2 के नीचे "4—बछड़ी" प्रविष्टि हटाई जाएगी और 5 से 20 तक की विद्यमान प्रविष्टियां

प्रिया 4 से 19 तक के रूप में पुनः संख्यांकित की जाएगी; और

- (4) मद सं० 11—महाराष्ट्र के सामने, स्तम्भ 2 के नीचे "11-बर्खा" प्रविष्टि हटाई जाएगी और 12 से 50 तक की विद्यमान प्रविष्टियाँ 11 से 49 तक के रूप में पुनः संख्यांकित की जाएगी।

[सं० 56/79-(3)]

आदेश से,
के० गणेशन, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, the 1st December, 1979

NOTIFICATION

S.O. 781(E).—Whereas by its order dated 29th November, 1979 the Election Commission of India has directed that (1) the symbol 'Calf and Cow' reserved for the Indian National Congress shall be frozen; and (2) neither of the two groups shall use the name "Indian National Congress" simpliciter till the final decision in the main dispute arising out of the application of Smt. Indira Gandhi dated the 7th January, 1978;

And whereas by its order dated 30th November, 1979 the Commission, in exercise of its powers conferred on it by article 324 of the Constitution read with rules 5 and 10 of the Conduct of Elections Rules, 1961, paragraphs 3, 6, 7, 8 and 18 of the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968 and all other powers enabling it in that behalf, ordered that—

- (i) the group of the Indian National Congress led by Shri Devaraj Urs be known as 'Indian National Congress (U)';
- (ii) the said 'Indian National Congress (U)' be recognised as a National Party;

- (iii) the symbol "Charkha" be reserved for the said 'Indian National Congress (U)'; and
- (iv) the said symbol "Charkha" be excluded from the list of free symbols for all those states where it is so included;

Now, therefore, in pursuance of clauses (a) and (d) of sub-para (1) and sub-para (2) of paragraph 17 of the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968, the Commission hereby makes the following amendments in its notification No. 56/79, dated 28th September, 1979, published as S.O. 557(E) in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3(ii) dated 28th September, 1979, and as amended from time to time, namely :—

In Table 1 appended to the said notification :

for the existing entry "1. Indian National Congress.....
.....Calf and Cow"

the entry "1. Indian National Congress (U).....Charkha" shall be substituted;

In Table 4 appended to the said notification :

- (i) against item No. 3. Bihar, under column 2, the entry "7. Charkha" shall be deleted and existing entries 8 to 30 shall be renumbered as 7 to 29;
- (ii) against item No. 8. Karnataka, under column 2, the entry "7. Charkha" shall be deleted and existing entries 8 to 26 shall be renumbered as 7 to 25;
- (iii) against item No. 9. Kerala, under column 2, the entry "4. Charkha" shall be deleted and existing entries 5 to 20 shall be renumbered as 4 to 19; and
- (iv) against item No. 11. Maharashtra, under column 2, the entry "11. Charkha" shall be deleted and existing entries 12 to 50 shall be renumbered as 11 to 49.

[No. 56/79-III]

By Order,

K. GANESAN, Secy.